

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 418]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 16 जुलाई 2019—आषाढ़ 25, शक 1941

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 12 जुलाई 2019

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-24/2019/18.—छ. ग. नगरपालिका अधिनियम 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, नगर पंचायत, डौण्डीलोहारा जिला बालोद (छ. ग.) के वार्डों का विस्तार नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार एतद्वारा अवधारित करता है :-

1. डौण्डीलोहारा नगर पंचायत को 15 वार्डों में विभाजित करता है और अनुसूची में दर्शाये अनुसार ऐसे प्रत्येक वार्ड की सीमा निर्धारित करता है ।
2. यह अधिसूचित करता है कि ऐसे प्रत्येक वार्ड से एक पार्षद निर्वाचित किया जाएगा ।

अनुसूची

वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
1	मढियापाट वार्ड
2	टिकरापारा वार्ड
3	भगत सिंह वार्ड
4	जैन मंदिर वार्ड
5	भारत माता वार्ड
6	गुरु घासीदास वार्ड
7	रानी झमित कुंवर देवी वार्ड
8	महावीर वार्ड
9	लाल रघुवीर सिंह वार्ड
10	रानी लक्ष्मी देवी वार्ड
11	डॉ. अम्बेडकर वार्ड
12	पं. दीनदयाल उपाध्याय वार्ड
13	संजयनगर वार्ड
14	जय महाकाली वार्ड
15	रामनगर वार्ड

डौण्डीलोहारा नगर पंचायत के वार्डों की चतुर्सीमा का विवरण वार्ड क्रमांक 01 मढियापाट वार्ड

- उत्तर :- देवलाल ठाकुर घर से राईस मिल से होते हुए छाटा तालाब के किनारे से बलीराम घर तक।
- पूर्व :- बलीराम बघेल घर से प्राथमिक शाला भवन होते हुए परदेशी राम सिन्हा के घर तक।
- दक्षिण :- परदेशी राम सिन्हा घर से अमृत घर होते हुए राखी राजपूत घर तक।
- पश्चिम :- राखी राजपूत घर से निगेन्द्र दाउ घर से होते हुए देवलाल ठाकुर घर तक।

वार्ड क्रमांक 02 टिकरापारा वार्ड

- उत्तर :- विरेन्द्र पवार घर से पृथ्वी घर से होते हुए आटा चक्की मशीन तक।
- पूर्व :- आटा चक्की मशीन से भगत सिंह चौक होते हुए तिलक यादव घर तक।
- दक्षिण :- तिलक यादव घर से राजकुमार जायसवाल घर तक।
- पश्चिम :- राजकुमार जायसवाल घर से विजय आटो होते हुए विरेन्द्र पवार घर तक।

वार्ड क्रमांक 03 भगत सिंह वार्ड

- उत्तर :- बंशी ठेठवार घर से भगवन्तीन देवागन एवं काशी राम देवांगन घर होते हुए बसंत सिन्हा घर तक।
- पूर्व :- बसंत सिन्हा घर से गम्भीर सिन्हा घर एवं दिलीप बाफना घर से होते हुए जुगराज साखला घर तक।
- दक्षिण :- जुगराज साखला घर से हजारीमल कपड़ा दुकान से होते हुए मंत्री निषाद दुकान तक।
- पश्चिम :- मंत्री निषाद दुकान से प्रतीक जैन एवं वर्धमान वस्त्रालय होते हुए बंशी ठेठवार घर तक।

वार्ड क्रमांक 04 जैन मंदिर वार्ड

- उत्तर :- पल्टन पटेल घर से होते हुए सुन्दर लाल घर तक।
- पूर्व :- सुन्दर लाल घर से मोती संचेती किराना दुकान से होते हुए जैन मंदिर तक।
- दक्षिण :- जैन मंदिर से केशव राम देशमुख घर से होते हुए लक्ष्मण निषाद घर तक।
- पश्चिम :- लक्ष्मण निषाद घर से गायत्री चौक एवं आनंद सिन्हा घर होते हुए पल्टन पटेल घर तक।

वार्ड क्रमांक 05 भारत माता वार्ड

- उत्तर :- प्राथमिक शाला भवन से भागवत बारले एवं सोहन बघेल घर होते हुए सुकालू बघेल घर तक।
- पूर्व :- सुकालू बघेल घर से चिन्ता राम टाण्डेकर घर होते हुए भैयालाल घर तक।
- दक्षिण :- भैयालाल घर से तीरथ मालेकर घर तक।
- पश्चिम :- तीरथ मालेकर घर से तिलक मालेकर एवं चिन्ता टाण्डेकर से होते हुए रामचरण पटेल घर तक, रामचरण लतेल कंवर घर से दामिनि बाई घर से होते हुए प्राथमिक शाला भवन तक।

वार्ड क्रमांक 06 गुरु घासीदास वार्ड

- उत्तर :- भोलाराम साहू घर से ओसवाल भवन एवं रतन पटेल मंगल भवन होते हुए शीतला मंदिर तक।
- पूर्व :- शीतला मंदिर से बडे तालाब से होते हुए राम मंदिर तक।
- दक्षिण :- राममंदिर प्राण से दुर्गा कला मंच, हिम्मतमल जैन एवं राजेन्द्र पारख होते हुए स्वरूपचंद जैन घर तक।
- पश्चिम :- स्वरूपचंद जैन, आशीष बाफना घर से होते हुए भोलाराम साहू घर तक।

वार्ड क्रमांक 07 रानी झमित कुंवर देवी वार्ड

- उत्तर :- जयलाल मालेकर दुकान से हस्तीमल सांखला एवं संतोष सोनी घर से होते हुए प्रेमलाल देवांगन घर तक।
- पूर्व :- प्रेमलाल देवांगन एवं मो.अब्दुल रसीद खान घर से होते हुए वैष्णव बाबा घर तक।
- दक्षिण :- वैष्णव बाबा घर से हिम्मत भंसाली, लक्ष्मी सोनकर घर से होते हुए रमेश मेडिकल दुकान तक।
- पश्चिम :- रमेश मेडिकल से अनिल गुप्ता गणेश सिन्हा हार्डवेयर दुकान से भारतीय स्टेट बैंक एवं जयलाल मालेकर दुकान तक।

वार्ड क्रमांक 08 महावीर वार्ड

- उत्तर :- लल्ला कसार घर से केकती सर, शैलेश ओटवानी एवं अजय छेदाम होते हुए चमरू ठेठवार घर तक।
- पूर्व :- चमरू ठेठवार घर से होते हुए अशोक निषाद घर तक।
- दक्षिण :- अशोक निषाद घर से कन्नु हल्बा, दाउतराम, नकुल कामडी से टेकसिंह छेदाम बैंक, अंकुराम कोसमा एवं अमरीत खरे, दानमसीह तक।
- पश्चिम :- दानमसीह चाल से अमीत किराना दुकान से जगदेव ठाकुर घर से होते हुए लल्ला कसार घर तक।

वार्ड क्रमांक 09 लाल रघुवीर सिंह वार्ड

- उत्तर :- विष्णु ठाकुर घर होते से अगर सिंह ढाले, लोकनाथ निषाद, घनानंद देवांगन, सुखीत यादव घर तक।
- पूर्व :- सुखीत यादव घर से सिया राम, उमेश कुमार बंजारे घर होते हुए सुखबती गोड तक।
- दक्षिण :- सुखबती गोड से रूखमणी मंडावी, कुमार सेवता, साहू सदन, अशोक यादव, सेवाराम चंदेल एवं कुमारी बाई घर तक।
- पश्चिम :- कुमारी बाई घर से निलकंठ भंडारी घर, पवन कोलियारे घर से होते हुए विष्णु ठाकुर घर तक।

वार्ड क्रमांक 10 रानी लक्ष्मी देवी वार्ड

- उत्तर :- डा. दानमसीह क्लीनिक से फुलचंद हल्बा, जीवन पाडे, घनश्याम हल्बा, रवी सोनी दरोगा पाडे, बलराम सोनी एवं सुखतेल गुरुजी घर, से होते हुए बंगाली घर तक।
- पूर्व :- बंगाली घर से होते हुए गैदसिंह गोड, प्रगति कार्यालय एवं प्रगति विद्यालय तक।
- दक्षिण :- प्रगति विद्यालय से गंगाराम बघेल, मर्केटिंग सोसायटी, गंगाराम कोसमा, राजेश कोसमा, सातो बाई, साहू किराना दुकान, प्रेम बाई हल्बा घर से होते हुए पुनीत हल्बा घर तक।
- पश्चिम :- पुनीत हल्बा घर से अब्दुल अजीज खान होते हुए दानमसीह क्लीनिक तक।

वार्ड क्रमांक 11 डॉ. अम्बेडकर वार्ड

- उत्तर :- बालक हाई स्कूल से पुराना जनपद कार्यालय होते हुए कोमलचंद जैन घर तक।
- पूर्व :- कोमलचंद घर से होते हुए फुलसिंह घर, पप्पु शर्मा घर होते हुए मुक्तिधाम तक।
- दक्षिण :- मुक्तिधाम से होते हुए मंडी प्रागण, वनोपज कार्यालय शिवमंदीर स्कूल भवन होते हुए कन्या छात्रावास तक।
- पश्चिम :- कन्या छात्रावास से होते हुए बालक हाई स्कूल तक।

वार्ड क्रमांक 12 पं. दीनदयाल उपाध्याय वार्ड

- उत्तर :- घनश्याम साहू घर से परसादी बड़ाई घर होते हुए कुलदीप सर घर तक।
- पूर्व :- कुलदीप सर घर से रेखा बाई घर से होते हुए पुष्पा भंसाली घर तक।
- दक्षिण :- पुष्पा भंसाली, शिव सिन्हा घर से होते हुए भुजबल देशमुख घर तक।
- पश्चिम :- भुजबल देशमुख घर से गोमती बाई घर होते हुए घनश्याम साहू घर तक।

वार्ड क्रमांक 13 संजयनगर वार्ड

- उत्तर :- नंद लाल सिन्हा, मनोज कोमा, मिनी स्टेडियम होते हुए कन्या स्कूल तक।
- पूर्व :- कन्या स्कूल से बलराम गुप्ता घर होते हुए संतोष सोनी घर तक।
- दक्षिण :- संतोष सोनी, रामनारायण घर से होते हुए सूर्यकांत कोसमा घर तक।
- पश्चिम :- सूर्यकांत कोसमा से पम्प हाउस होते हुए नंद लाल सिन्हा घर तक।

वार्ड क्रमांक 14 जय महाकाली वार्ड

- उत्तर :- तिलक निषाद सरस्वती शिशु मंदिर, चौरसीया चाल, गिरिश का मकान, मिलन सिन्हा, राधेश्याम, तारम गुरुजी, देवनाथ देवांगन घरे होते हुए गौशाला चाल तक।
- पूर्व :- गौशाला चाल रामवतार सिन्हा, काली मंदिर होते हुए आसकरण कपडा दुकान तक।
- दक्षिण :- आसकरण कपडा दुकान, टिकम सिन्हा घर से होते हुए साधू निषाद घर तक।
- पश्चिम :- साधू निषाद घर से होते हुए देवार पारा, देवव्रत देवांगन होते हुए तिलक निषाद घर तक।

वार्ड क्रमांक 15 रामनगर वार्ड

- उत्तर :- दुलार सिन्हा, पम्प हाउस से होते हुए ठाकुर ढाबा तक।
- पूर्व :- ठाकुर ढाबा से गायत्री मंदीर, शिव मंदीर होते हुए मस्जिद तक।
- दक्षिण :- मस्जिद से देवनाथ देवांगन, रेवाराम सिन्हा, उदे रजक, बिरेन्द्र कुमार साहू घर तक।
- पश्चिम :- बिरेन्द्र कुमार साहू घर से महेश दिवान कालोनी होते हुए दुलार सिन्हा के पम्प हाउस तक।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एक्का, उप सचिव.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 12 जुलाई, 2019

क्रमांक-एफ 1-24/2019/18.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक : एफ 1-24/2019/18 दिनांक 12.07.2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एक्का, उप सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar dated 12 July, 2019

NOTIFICATION

No. F 1-24/2019/18 .- In exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 29 of the chhattisgarh municipalities act 1961 (No.37 of 1961) the State Government hereby determine the extent of wards of Nagar Panchayat Doundi Lohara Distt. Balod as per shedule given Below :-

1. Divides Nagar Panchayat Doundi Lohara in to 15 wards and described the limits of each ward as shown in schedule.
2. Notified that one councilor shall be elected from each such ward.

SCHEDULE

S.No.of ward	Name of the ward
1	Madhiya pat ward
2	Tikrapara ward
3	Bhagat singh ward
4	Jain Mandir ward
5	Bharat mata ward
6	Guru Ghansidas ward
7	Rani Jhamit kuwar devi ward
8	Mahaveer ward
9	Lal Raghuveer singh ward
10	Rani Laxmi devi ward
11	Dr. Ambedkar ward
12	Pt. Dindayal Upadhyay ward
13	Sanjay Nagar ward
14	Jai Maha kali ward
15	Ram Nagar ward

Descriptions of the Boundries of ward of Nagar Panchayat Doundi Lohara.

Ward No. 01 Madhiya Pat Ward

- North - Starting from Devlal ThakurHouse to chhata talab side up to house of baliram.
- East - Starting form house of Baliram baghel to primary school up to house of pardeshi ram Sinha house.
- South - Starting from house of Pardeshi ram Sinha to house of Amrit up to house of Rakhi rajput.
- West - Starting from house of Rakhi rajput to Nigendra dau up to Devlal Thakur house.

Ward No. 02 Tikra Para Ward

- North - Starting from house fo Virendra pawar to house of prithvi up to Flowre mill.
- East - Starting from Flowre mill machin to Bhagat singh chowk up to house of Tilak yadav.
- South - Starting from house of Tilak yadav up to house of Rajkumar jaiswal.
- West - Starting from house fo Rajkumar jaiswal to vijay auto up to house of virendra pawar.

Ward No. 03 Bhagat singh Ward

- North - Starting from house of Banshi thethwar to Bhgawantin dewangan, house of kashi ram dewangan up to house of Basant sinha.
- East - Starting from house of Basant sinha to house fo Gambhir sinha, house of Dilip bafna up to house jugraj sankhla.
- South - Starting from house of Jugraj sankhla. To Hajarimal cloth store up to shop of Mantri nishad.
- West - Starting from shop of Mantri nishad to house of Pratik jain, to Vardhman cloth store up to house of Banshi thethwar.

Ward No. 04 Jain mandir Ward

- North - Strting from house of Paltan patel up to house of Sunder lal.
- East - Starting from house of Sunder lal to General store of Moti sancheti upto Jain tempal.
- South - Starting from Jain temple to house of keshav ram deshमुख up to house of Laxman nishad.
- West - Starting form house of Laxman nishad to Gayatri chowk and Anand nidad up to house of paltan patel.

Ward No. 05 Bharat mata Ward

- North - Starting from Primary school Tohouse of Bhagwat Barle and house of shoan baghel to house of sukalu bhaghel.
- East - Starting from house of Sukalu bhaghel to house of Chinta ram tandekar up to house of Bhaiyalal.
- South - Starting from house of Bhaiyalal to house of house of Tirath malekar.
- West - Starting from house of Tirath malekar to house of Tilak malekar and house of Chinta tandekar up to house of Ram charan patel, house of Ram charan latel kavar house of Damini bai up to Primary school

Ward No.06 Guru Ghansidas Ward

- North - Starting from house of Bhola ram sahu to Oswal Bhawan to house of Ratan patel up to sheetla temple.
- East - Starting from Sheetla temple to Bade talab up to Ram temple.
- South - Starting from Ram mandir Campus to Durga art stage and house of himmatmal jain and house of Rajendta parakh up to house of Swarup chand jain.
- West - Starting from house of Swarup chand jain, house of Ashish bafna up to house of Bhola ram sahu.

Ward No. 07 Rani Jhamit Kuwar Devi Ward

- North - Starting from shop of Jailal malekar to house of Hastimal sakhla and house of santosh soni up to house of prem lal dewangan.
- Esat - Starting from house of Prem lal dewangan and house of Mo.Abdul rasid Khan up to house of Vaishanav baba.
- South - Starting from house of Vaishanav baba to house of Himmat Bhanshali, house of Laxmi sonkar up to Ramesh medical store.
- West - Starting from Ramesh medical store to house of Anil gupta Ganesh sinha hardware shop to Bharti state bank up to shop of jailal malekar.

Ward No. 08 Mahaveer Ward

- North - Starting from house of Lalla kasar to house of kekti sir, house of Shailesh Otvani and house of Ajay chhedam up to house of Chamru thethwar.
- East - Starting from house of Chamru thethwar up to house of Ashok nishad.
- South - Starting from house of Ashok nishad to house of kannu halba, Dautram, Nakul kamdi to Tek singh Chhedam bank up to house of Aktu ram kosma, And Amrit khare up to house of Danmasih.
- West - Starting from house of Danmasih to shop of Amit to house of house of Jagdev thakur up to house of Lalla kasar.

Ward No. 09 Lal Raghuveer singh Ward

- North - Starting from house of Vishnu thakur, Agar singh Dhale, Loknath nishad, Ghananand Dewangan up to house of Sukit yadav.
- East - Starting from house of sukhit yadav to house of siya ram, house of Umesh kumar banjare up to house of Sukhbatu gond.
- South - Starting from house of Sukhbatu gond to house of Rukhmani mandavi, kumar Sewta sahu sadan house, Ashok yadav, Seva ram Chandel up to house of Kumari bai.
- West - Starting from house of kumari bai to Nilkanth bhandari up to house of Pawan koliyare.house of Vishnu Thakur.

Ward No. 10 Rani Laxmi devi Ward

- North - Starting from clinic of Danmasih to house of phool chand halba, Jivan pade, Ghashayam halba, Ravi soni, Daroga pade, Balram soni, and house of teacher sukhtel up to house of bangali.
- East - Starting from house of bangali, Gaiind singh gond, Pragti office and Pragati school.
- South - Starting from Pragati school to house of Ganga ram baghel, marketing society, Ganga ram kosma, Rajesh kosma, sato bai, Sahu general shop, house of Prem bai halba up to hhouse of Punit ram halba.
- West - Starting from house of punit ram halba to Abdul Azij up to clinic of danmasih

Ward No 11 Dr. Ambedkar Ward

- North - Starting from boys high school to old janpad office up to house of komal chand jain.
- East - Starting from house of komal chand jain up to house of phool singh, to house of pappu sharma up to mukti dham.
- South - Starting from mukti dham up to mandi prangan, forest vibhag Shiv temple, new school building up to girls hostel.
- West - Starting from girls hostel to boys high school

Warad No. 12 Pt.Dindayal Upadhyay Ward

- North - Starting form house ghansyam sahu to house of parsadi badai up to house of kuldeep sir .
- East - Starting from house of kuldeep sir to house of rekha bai up to house of puspa bhansali.
- South - Starting from to house of puspa bhansali, to house of shiv sinha up to house of bhujbal desh mukh.

West - Starting from house of bhujbal deshmukhto house of gomti baiup to house of ghansyam sahu.

Ward No 13 Sanjay Nagar Ward

North - Starting from house of nandlal sinha , manoj koma, mimi stadiumup to girls school.
 East - Starting from girls school to balram gupta up to house of santosh soni.
 South - Starting from house of santosh soni,ramnarayan up to house of suryakant kosma.
 West - Starting from house of suryakant kosma topumphouse up tohouse of nandlal sinha

Ward no 14 Jai Maha kali Ward

North - Starting from house of Tilak nishad saraswati shaishu mandir, Churasiya chal, house of Girish makan, Milan sinha , Radheshayam, teacher taram, Devnath dewangan, up to gaushala chal.
 East - Starting from gaushala chalup to Ramavtar sinha kali temple, up to cloth shop of Askaran.
 South - Starting from cloth shop of Askaran to house of Tikam sinha up to house of sadhu nishad.
 West - Starting from house of sadhu nishadto dewar para, dev vrat dewangan, up to house of Tilak nishad.

Ward no 15 Ram Nagar Ward

North - Starting from house of dular sinha,pump house up to Thakur dhaba.
 East - Statring from Thakur dhaba,to, Gayatri temple,shiv temple up to masjid.
 South - Starting from masjid to Devanath Dewangan to Rewa ram Sinha, Ude rajak up to house of Birendra kumar sahu.
 West - Starting from house of Birendra kumar sahu to Mahesh diwan colony up to pump house of Dular sinha.

By order & In the name of Governor of Chhattisgarh,
 R.EKKA, Deputy Secretary.